



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 1982/माघ 5, 1903  
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1982/MAGHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1982

सां०का०नि० 27(अ).—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 7 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1982 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 के विनियम 11 में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :—

- (1) यदि कोई उम्मीदवार इस संबंध में ऐसा लिखित अभ्यावेदन देना चाहे तो उसे यह अवसर दे दिए जाने के बाद, और;
- (2) यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तो उस पर विचार किए जाने के बाद।”

पाठ टिप्पणी

मुख्य विनियम दिनांक 11 अप्रैल, 1967 के सां०का०नि० संख्या 535 द्वारा जारी किये गये थे और उन्हें निम्नलिखित 12 संशोधित किया गया है :—

1. सां०का०नि० संख्या 1806 दिनांक 2 अगस्त, 1966

2. सांकांनि संख्या 1956 दिनांक 28 नवम्बर, 1970
3. सांकांनि संख्या 664 दिनांक 8 मई, 1971
4. सांकांनि संख्या 69 (ई) दिनांक 23 फरवरी, 1973
5. सांकांनि संख्या 431 दिनांक 5 अप्रैल, 1975
6. सांकांनि संख्या 2502 दिनांक 11 अक्टूबर, 1975 तथा
7. सांकांनि संख्या 454 दिनांक 8 अप्रैल, 1978

[सं. एफ. 11028/1/81-प्र.भा.से.-(1)]

पो.एन. कोहली, अवर सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1982

**G.S.R. 27(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 7 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, in regulation 11, after clause (C), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no penalty under clause (a) or clause (b), as the case may be, shall be imposed except after—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration."

#### Foot Note

The principal Regulations were issued vide GSR No. 535, dated the 11th April, 1967, and have been amended vide—

1. GSR No. 1806, dated 2nd August, 1969.
2. GSR No. 1956, dated 28th November, 1970.
3. GSR No. 664, dated 8th May, 1971.
4. GSR No. 69(E), dated 23rd February, 1973.
5. GSR No. 431, dated the 5th April, 1975.
6. GSR No. 2502, dated 11th October, 1975, and
7. GSR No. 454 dated 8th April, 1978.

[No. F. 11028/1/81-AIS(I)]

P. N. KOHLI, Under Secy.